



शाकाहारी होना गर्व की बात है
जीओ और जीने दो

To,
Bombay Stock Exchange Limited
Floor 1, Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001

Date: 31/01/2024

Dear Sir/ Madam,

Reference: Scrip Code-533268

Sub: Submission of Newspaper Publication of Notice of Board Meeting and Un Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Third Quarter ended as on dated 31st December, 2023.

Pursuant to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of Notice of Board Meeting and Un Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Third Quarter ended as on dated 31st December, 2023 published on the newspapers (“**Hindustan**” & “**Financial Express**”) which were approved at the Board Meeting of the Company held on Monday i.e. 29th January, 2024 at the registered office of the company.

You are requested to take the above information in your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For SEA TV NETWORK LIMITED

KARISHMA JAIN Digitally signed by
KARISHMA JAIN
Date: 2024.01.31
16:17:11 +05'30'
KARISHMA JAIN
(Company Secretary & Compliance officer)

Sea TV Network Limited
148, Manas Nagar,
Shahganj, Agra-282010
Tel : + 91-562-4036666, 2512122
Fax : + 91-562-2511070

CIN : L92132UP2004PLC028650

e-mail:admin@seatvnetwork.com

www.seatvnetwork.com

SEA TV Sea TV Network Limited

Regd. Office : 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010
Website : www.seatnetwork.com Email ID : cs@seatnetwork.com
CIN : L92132UP2004PLC028650

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2023 (Rs. In Lakhs)

Particulars	Standalone				Consolidated						
	Quarter Ended		Nine Months Ended		Quarter Ended		Nine Months Ended				
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	30.09.2022			
Total Income from operations	281.28	276.89	276.25	771.11	814.90	1,402.23	291.21	321.45	905.11	934.78	1,520.40
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(71.86)	(164.21)	(130.21)	(344.96)	(317.44)	(83.83)	(69.41)	(109.61)	(382.12)	(344.78)	(175.21)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,354.16	(164.21)	(130.21)	3,081.06	(317.44)	(83.83)	3,356.61	(109.61)	3,043.90	(344.78)	(175.21)
Total Comprehensive Income/(Loss) for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3,354.16	(164.21)	(130.21)	3,081.06	(317.44)	(83.83)	3,356.61	(109.61)	3,043.90	(344.78)	(175.21)
Equity paid up share capital	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00	1,202.00
Earnings per share (Not annualised):											
Basic (Rs.)	27.90	(1.37)	(1.08)	25.63	(2.64)	(0.69)	27.93	(1.41)	25.32	(2.87)	(1.46)
Diluted (Rs.)	27.90	(1.37)	(1.08)	25.63	(2.64)	(0.69)	27.93	(1.41)	25.32	(2.87)	(1.46)

The above Results were reviewed and recommended by the Audit Committee & approved by the Board of Directors at their Meeting held on January 29, 2024. The Statutory Auditors of the Company have carried out Limited Review of the aforesaid results.

*Emphasis of Matter :-
The Loan account of the company (term loan & working capital loan) from Allahabad Bank (now merged with Indian Bank w.e.f. 01.04.2020) was declared as non-performing asset by the bank, as the company defaulted in repayment of Principal & Interest thereon. Further the Settlement proposal submitted by the company to Indian Bank on 03.05.2023 was accepted by the bank vide letter Ref No. SAMAND/SEA TV OTS/2023-24/1858 whereby the OTS is sanctioned of Rs. 26 crore. The amount has to be paid within 360 days of accepting the letter with certain terms and conditions. The same OTS approved by bank has been intimated to Bombay Stock Exchange by the Company.

Further the amount outstanding as at 31.09.2023 in different term loans and cash credit (including accrued and due up till the date of NPA) is Rs. 60.26 crore. After considering OTS amount of Rs. 26 crore, amount of Rs. 6.77 crore in respect of interest and principal of Rs. 27.49 crore is credited to statement of Profit & Loss account under the head "exceptional item in accordance with IndAS 109 declassification of a financial liability."

The above is an extract of the detailed format of audited standalone and consolidated Quarterly Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.bseindia.com and on the company website www.seatnetwork.com

For Sea TV Network Limited
Neeraj Jain
(Chairman & Managing Director)

Place : AGRA
Date : 29.01.2024

COMPUCOM Software Limited

IT: 14-15 EPIP, Sitapura, Jaipur-302022 (Rajasthan) (India), Tel: 0141-2770131, Fax: 0141-2770335
Email: fin@compucom.co.in, Website: www.compucom.co.in, CIN: L72200RJ1995PLC009798

COMPUCOM SOFTWARE LIMITED
Statement of Un-audited Standalone Financial Results for the Quarter/ Nine months ended on December 31, 2023 (Rs. In Lacs)

S. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended		Year Ended
		31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2022
1	Total Income	2,184.16	5,966.43	932.29	2,374.87	6,486.54	1,004.64
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	122.03	677.22	99.29	139.71	766.67	78.42
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	122.03	677.22	99.29	139.71	766.67	78.42
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	89.63	460.44	72.33	107.33	540.68	51.81
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	94.40	474.74	78.05	112.87	557.28	57.53
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs. 2/- each)	1582.50	1582.50	1582.50	1582.50	1582.50	1582.50
7	Reserve excluding revaluation reserves as per balance sheet of previous accounting year						
8	Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (for continuing and discontinuing operations)						
	1. Basic :	0.11	0.58	0.09	0.13	0.65	0.07
	2. Diluted :	0.11	0.58	0.09	0.13	0.65	0.07

Notes: (1) The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange websites and company's website-Compucom's website: www.compucom.co.in, BSE Limited: www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited: www.nseindia.com (2) The said financial results were reviewed by the Audit Committee and were thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on January 30, 2024 (3) In accordance with the requirements under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Statutory Auditors have performed a limited review of the financial results of Compucom Software Limited for the quarter and nine months ended on December 31, 2023. There are no qualifications in the limited review report issued for the said period.

For and on behalf of the Board of Compucom Software Limited
Sd/-
Surenra Kumar Surana
Managing Director (DIN: 00340866)

Place: Jaipur
Date: January 30, 2024

TINNA TRADE LIMITED

Regd. off.: No. 6, Saltanpur, Mandi Road, Mehrauli, New Delhi-110030
Tel: 011-49518530 Fax: 011-26804883
E-mail: investor.tl@tinna.in, www.tintrade.in
CIN : L51100DL2009PLC189397

NOTICE
Notice is hereby given in terms of Regulations 29 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Thursday, 8th February, 2024, at the Registered Office of the company, inter-alia, to consider following:-
1. To consider and approve the Standalone unaudited Financial Results of the company for the quarter ended on 31st December, 2023.
2. To consider and approve the voluntary delisting of the company from Calcutta Stock Exchange (CSE).
The information contained in this notice is also available on Company's website at www.tintrade.in and also on the website of Stock Exchange, i.e. www.bseindia.com

For Tinna Trade Limited
Monika Gupta
Company Secretary

Place : New Delhi
Date: 30.1.2024

CENLUB INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 233-234 Sector-58 Ballabgarh Faridabad-121004, Haryana
Phone No: 08826794470, 71,
Website: www.cenlub.in
E-mail: cenlub@cenlub.in
CIN No: L67120HR1992PLC035087

SUB: INTIMATION FOR BOARD MEETING TO BE HELD ON SATURDAY, 10TH FEBRUARY, 2024

Pursuant to Regulation 29 and other applicable provisions, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we wish to inform you that a Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, 10th February, 2024, at 3:00 PM at the Registered Office of the company at Plot No. 233 & 234, Sector-58, Ballabgarh, Faridabad, Haryana - 121004, inter-alia:-
1. To consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2023.
2. Any other Business as may be considered necessary
In continuation to our letter dated December 29, 2023, pursuant to the Provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015 and as per the Company's Code of Internal Procedure and Conduct for Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company, has been closed for the purpose of declaration of Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on 31st December, 2023 for all the Designated Persons and their immediate relatives (including Promoters and Directors) from January 1, 2024 and will remain closed up to February 14, 2024 (both days inclusive).

For CENLUB INDUSTRIES LIMITED
Sd/-
ANSH MITTAL
Whole Time Director
DIN: 00041986

Place: Faridabad
Date: 30.01.2024

VERITAS FINANCE PRIVATE LIMITED

CIN: U65923TN2015PTC100328, RBI Regn No: N-07.00810
Regd. Office: SKCL Central Square 1, South & North Wing, 7th Floor, Unit C28-C35, CIPET Road, Thiru Vi Ka Industrial Estate, Guindy, Chennai - 600 032. www.veritasfin.in

Statement of Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December 2023 (All amounts are in INR lakhs, except share data and stated otherwise)

S.No	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended
		31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations for the period / year	29,678.34	26,072.69	18,078.41	78,603.70	47,701.60
2	Net Profit for the period / year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	8,354.65	7,244.44	5,506.21	21,819.63	16,020.22
3	Net Profit for the period / year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,354.65	7,244.44	5,506.21	21,819.63	16,020.22
4	Net Profit for the period / year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6,336.68	5,558.37	4,180.64	16,526.43	12,121.99
5	Total Comprehensive Income for the period / year	6,289.02	6,062.90	4,065.53	16,582.49	11,973.01
6a	Paid up Equity Share Capital	12,751.92	12,751.92	4,919.42	12,751.92	4,920.49
6b	Paid up Compulsorily Convertible Preference Share Capital	-	-	6,501.91	-	6,501.91
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	2,12,018.57	2,05,540.29	1,42,030.97	2,12,018.57	1,42,030.97
8	Securities Premium Account	1,58,123.16	1,58,123.16	1,10,349.56	1,58,123.16	1,10,349.56
9	Net worth (equity and preference share capital + reserve and surplus excluding revaluation reserve)	2,24,770.49	2,18,292.21	1,53,452.31	2,24,770.49	1,59,125.60
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt (debt securities + borrowings)	3,65,461.89	3,22,341.32	2,00,047.60	3,65,461.89	2,00,047.60
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-
12	Debt Equity Ratio (Refer note d)	1.63	1.48	1.30	1.63	1.30
13	Earnings per share (Refer note e)					
	- Basic	4.96	7.07	8.55	19.37	24.91
	- Diluted	4.77	6.58	3.45	17.71	10.02
14	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-
15	Debt Redemption Reserve (Refer note f)	-	-	-	-	-
16	Debt Service Coverage Ratio (Refer note g)	-	-	-	-	-
17	Interest Service Coverage Ratio (Refer note g)	-	-	-	-	-

Notes:
(a) Veritas Finance Private Limited ("the Company") had received the Certificate of Registration dated 15 October 2015 from Reserve Bank of India ("RBI") to carry on the business of Non-Banking Financial Company without accepting public deposits ("NBFC-ND"). During May 2018, the Company had crossed the total assets threshold of INR 500 crores and had become a Non-Deposit Taking Systemically Important Non-Banking Financial Company ("NBFC-ND-SI"). The Company is a NBFC-ND-SI registered with the RBI and classified under middle layer as per scale based framework applicable from 01 October 2022. The Company has complied with and continues to comply with all the applicable regulations and directions of the RBI pertaining to middle layer.
The asset size of the Company had crossed INR 5,000 crore during the nine months ended 31 December 2023. Accordingly, the Company is in the process of complying with the new norms that are now applicable.
The Company is engaged in extending credit to micro and small enterprises, typically self-employed businesses and salaried segment primarily through business loans and housing loans. The Company follows a cash flow based model for credit assessment with suitable adaptations for each type of income sources. The loans are given for business expansion, working capital, purchase of assets, construction of houses etc.
(b) The SI No. 1 to 8 and 12 are extracts from the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2023 filed with the stock exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2023 are available on the websites of BSE (https://www.bseindia.com) and the Company website (https://www.veritasfin.in/announcement-and-results.php).
(c) The financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2023 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 30 January 2024 in terms of Regulation 33 and 52 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.
The above results have been subjected to review by the statutory auditors of the Company. The statutory auditors have issued an unmodified opinion. These financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2016. These financial results have been drawn up on the basis of Ind AS that are applicable to the Company as at 31 December 2023 based on the press release issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") on 18 January 2016. Any application guidance/clarifications/directions issued by RBI or other regulators are implemented as and when they are issued / applicable.
(d) Debt equity ratio is calculated as ((Debt securities + Borrowings) / Net worth).
(e) Earnings per share for the quarter and nine months ended 31 December 2023 and 31 December 2022 and for the quarter ended 30 September 2023 have not been annualised.
(f) Debt redemption reserve is not required in respect of privately placed debentures in terms of Rule 18(7)(b)(ii) of the Companies (Share Capital and Debenture) Rules, 2014.
(g) Debt service coverage ratio and interest service coverage ratio is not applicable for Non-Banking Financial Company (NBFC) and accordingly no disclosure has been made.
(h) There was no deviation/variation in the use of the proceeds of the issue of Non-Convertible Debt Securities.
(i) The figures for the quarter ended 31 December 2023 and 31 December 2022, are the balancing figures in respect of the reviewed figures of the nine months ended 31 December 2023 and 31 December 2022 and figures for the half year ended 30 September 2023 and 30 September 2022 respectively.
(j) The Company during the nine months ended 31 December 2023, had granted 2,10,000 Employee Stock Options of face value of INR 10 each at an exercise price of INR 475 per option, out of Employee Stock Options Scheme, on its own shares to specified employees of the Company on 26 October 2023.
18,73,000 options of face value of INR 10 were exercised by the employees during the nine months period from April 2023 to December 2023. The total outstanding employee stock options as at 31 December 2023 stands at 18,06,250.
(k) **Securitisation:** During the nine months ended 31 December 2023, the Company had raised INR 330.41 crores by way of transfer of certain pool of loan receivable accounts for consideration received in cash at the inception of the transaction through multiple securitisation transactions. In this regard, for each transaction, the Company has provided for first loss credit enhancement in the form of deposit and investment in equity tranche as credit support in the event of shortfall in collections from underlying loan contracts.
(l) **Commercial paper:** During the nine months ended 31 December 2023, the Company had raised INR 105 crores by way of issuance of commercial paper with CARE A1+ rating assigned by CARE Ratings Limited.
(m) Pursuant to RBI circular dated 16 November 2023, certain loan assets of the Company which are not in the nature of business loans and housing loans have been assigned a risk weight of 125% for the purpose of calculating capital risk adequacy ratio.
(n) During the quarter ended 31 December 2023, the Company established a trust for the purpose of covering the gratuity payable to employees as per Payment of Gratuity Act, 1972 in association with SBI Life Insurance Company Limited.
(o) Being a Middle layer NBFC (NBFC-ML), the board of directors has approved the policy for Internal Capital Adequacy Assessment process (ICAAP). In this regard, the Company has completed assessment of its risks to ensure availability of adequate capital to cover all risks applicable to the Company for financial year ended 31 March 2022 and it is in the process of assessing the same for financial year ended 31 March 2023. Also, the Company has initiated necessary steps in terms of formulating an implementation plan and ensuring compliances with norms thereof.
(p) Previous periods/year figures have been regrouped/reclassified wherever necessary, to confirm with the current period/year presentation.

For and on behalf of the Board of Directors
Veritas Finance Private Limited
Sd/-
D. Arulmany
Managing Director and Chief Executive Officer

Place : Chennai
Date : 30.01.2024

COAL INDIA LIMITED

A MAHARATNA COMPANY (A Govt. of India Enterprise)
3rd floor, Core-2, Premises no-04-MAR, Plot no-AF-III, Action Area-1A Newtown, Rajarhat, Kolkata-700156
PHONE: 033-2324-5555
E-MAIL: comsec2.cil@coalindia.in, WEBSITE: www.coalindia.in
CIN- L23109WB1973GOI028844

NOTICE FOR BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 & 33 of the SEBI (LoDR) Regulations 2015, notice is hereby given that meeting of Board of Directors of the company will be held on **Monday, 12th Feb'24** inter-alia to consider, approve and take on record Un-audited Financial Results of the company (Standalone & Consolidated) for the 3rd quarter ended 31st Dec'23 after the results are reviewed by the Audit Committee of the Board.
Further, pursuant to Regulation 29 & 42 of the Listing Regulations 2015, notice is also given that Board of Directors of the company may also, inter alia, consider and declare payment of 2nd Interim Dividend for FY 2023-24, if any. The Company has fixed **Tuesday, 20th Feb'24** as the "Record Date" for the purpose of payment of 2nd Interim Dividend on Equity Shares for Financial Year 2023-24, if declared by the Board.
The Company has already closed its "Trading Window" under "CODE OF INTERNAL PROCEDURES AND CONDUCT FOR PREVENTION OF INSIDER TRADING IN SECURITIES OF COAL INDIA LIMITED" from 26th Dec'23 and it will re-open on 15th Feb'24.
The said notice may be accessed on the company's website at www.coalindia.in under "Investor Center, Events & Announcements" and also on Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Coal India Limited
Sd/-
B.P Dubey
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Kolkata
Date: 31.01.2024

URJA GLOBAL LIMITED

Regd. Office : 487/63, 1ST FLOOR, NATIONAL MARKET, PEERAGARIH, NEW DELHI - 110087
CIN:L67120DL1992PLC045853

EXTRACT OF UN-AUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTH ENDED 31st DECEMBER, 2023 (Rs. In Lacs)

S. No.	PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED		STANDALONE		CONSOLIDATED	
		Quarter Ended		Quarter Ended		Year Ended		Year Ended	
		31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2022 (Un-Audited)	31.12.2023 (Un-Audited)	31.12.2022 (Un-Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2023 (Audited)		
1	Total income from operations (net)	1,150.78	3,003.63	1,149.72	3,083.47	4,038.46	4,141.22		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and Extraordinary Items)	98.87	176.80	94.30	189.01	179.02	197.85		
3	Net Profit for the period before tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	98.87	176.80	94.30	189.01	179.02	197.85		
4	Net Profit for the period after tax, (after Exceptional and Extraordinary items)	98.87	176.80	94.30	189.01	179.02	152.50		
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	98.87	176.80	94.43	189.02	179.02	152.50		
6	Equity Share Capital	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01	5,339.01		
7	Reserves (excluding revaluation reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-		
8	Earnings per share (of Re. 1/- each) (for continuing operations)								
	1. Basic	0.0190	0.0330	0.0180	0.0350	0.0334	0.0290		
	2. Diluted	0.0190	0.0330	0.0180	0.0350	0.0334	0.0290		

Notes:
1. The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
2. The Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to correspond with the current period's classification / disclosure.
3. The EPS has been calculated in accordance with Ind AS 33 as notified by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013.
4. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th January, 2024

For URJA GLOBAL LIMITED
Sd/-
MOHAN JAGDISH AGARWAL
Managing Director
DIN: 07627568

Place : New Delhi
Date : 30th January, 2024

MADHUR NOURISHMENT PRODUCTS LLP- IN LIQUIDATION

LLPIN: AAF- 6086
Regd. Add: C-713 BSEL Tech Park, Plot No.39/5 & 39/5A, Sector 30A, Opp: Vashi Railway Station, Vashi, Navi Mumbai, Mumbai City, Maharashtra 400703.

E-Auction Notice
Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of E-Auction: 1st March, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM (With the unlimited extension of 10 minutes each)
Sale of Corporate Debtor by the liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 01st March 2023 in I.A. 2663 OF 2021 IN C.P.(IB) No. 236 of 2020. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform https://eauctions.co.in (Linkstar Infosys Private Limited).

Block	Class	Description	Reserve Price	Earnest Money Deposit	Incremental Value
I	Land & Building	Land Located at Gat No. 23, Village Limpangan, Taluka - Srignonda, District - Ahmednagar Maharashtra - 413726 measuring 5000 sq. mtr. along with compressor Shed & Adjaent, Cold Storage Shed, Adjaent open shed to cold storage open shed, Security Cabin, well and Weld Mesh Fencing & MS Gate thereon	1,29,99,600/-	12,99,000/-	5,00,000/-
II	Plant & Machinery	32 Bulk Milk Coolers (BMCs) along with condensing makes, DG Sets, Milk testing units, Weighing scale etc. which are installed at various locations of third parties such as Hingani, Deo-Daithon, Srignonda, Padi, Ranjangan, Raleganshi, Pawe Khurd, Pralson Malvi, Manjarsumbh, Khosuri, Kashi, Baburdi, Kolgan, Erondli, Pimpikolander, Ghugal, Wadgaon, Deulgan, Takal Lonar, Ghodgaon, Jamkhed - Srignonda, Anandwadi, Mundekarwadi, Kshi-Srignonda & BMCs, 3 Condensing units, Ammonia Compressors with 10HP Motor with Pump and 125MM PUF Panels for walls and ceiling with hinged doors at factory area in Village Limpangan Taluka - Srignonda, District - Ahmednagar.	2,14,63,603/-	21,45,000/-	2,00,000/-

Last date of submission of Eligibility Documents: 15th February, 2024 before 05:00 P.M. in the manner mentioned in detail E-auction Process Document
Declaration of Eligible Bidder: 16th February 2024
Inspection of Assets of Corporate Debtor: From 17th February 2024 to 24th February 2024.
Last Date for submission of Earnest Money Deposit: 27th February 2024
Date and time of E-Auction for qualified bidders: 1st March 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM

Terms & Conditions of the sale is as under:
1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WITHOUT IS", "WHATSOEVER THERE IS BASIS" AND "NO RECOURSE BASIS" as such sale is without any kind of warranties and in demities through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited Company or behalf of E-Auction Agency (Linkstar); Contact person: Mr. Dixit Prajapati Email-id:admin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 9870099713
2. Documents shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the format prescribed in the detailed E-auction Process Document on or before 15th February 2024 before 05:00 PM. The bid form along with detailed terms & conditions of the complete E-auction process can be downloaded from the website https://eauctions.co.in.
3. It is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability.<

कलक्ट्रेट बार के अध्यक्ष सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट पेश

सविन हत्याकांड

रामपुर एज्युटिव कालोनी (ताजपुर) निवासी सविन अग्रवाल को तीन की खबर 12 अक्टूबर को...



आरोपी कुंवर राता।


11 अक्टूबर की रात को हुई थी वादादत

मुम्बई की विवेचना एग्सेक्यूटिव क्राइम टास्कफोर्स कृष्णा के पास थी। उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि सविन अग्रवाल की हत्या 11 अक्टूबर की रात की गई थी।

घर में तलेश के कारण हुई हत्या

विवेक ने बताया कि सविन अग्रवाल एक प्रचलक थे। फोन और कर्वा के साथ शहर में रहते थे। फोन-मिटर और अन्य परिजन गांव में रहते थे।

Hyderabadzi haar gaye



पहले इंडिया-इंग्लैंड टेस्ट मैच में बाजबाल रहा हमारी!

बिल्डर और उसके बेटे धीरू चौधरी पर पुलिस का शिकंजा बिल्डर कमल चौधरी की सम्पत्ति की जाएगी कुर्क!



आगरा। जगदीशपुरा अना क्षेत्र के जमीन कब्जा में बिल्डर कमल चौधरी और धीरू चौधरी पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने कुर्क की कार्यवाही के लिए...



बोदना में कराहों की इसी जमीन पर कब्जे का है विवाद।

पुलिस को पूर्वाचल में मिली थी लोकेशन कमल चौधरी और धीरू चौधरी की लोकेशन पुलिस को दूरवाहन में मिली थी। पुलिस टीम यहां गई, लेकिन आरोपित धारा नहीं मिले।

एमजी रोड पर छात्र गुटों में चलेलात-घुंसे

आगरा। एमजी रोड पर दीवानी के गेट नंबर-2 के सामने छात्र गुटों में विवाद के बाद अमकर लात-घुंसे चले। दो छात्रों की छत्र छात्रों ने पिटाई लगाई।

रील बनाने वाली पूर्व महिला सिपाही का दर्द हुआ वायरल

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। रील से चर्चा में आई पूर्व महिला सिपाही प्रिंका मिश्रा फिर से सुर्खियों में हैं। एक बार इतनी कठिनाई और फिर नौकरी खत्म हो गई।

नहर में गिरी बोलेरो, बाल-बाल बचे

आगरा। मत्स्यार के बाना इलाक नगर क्षेत्र के आगरा याविलर रोड के नजदीक गौड़ सुरकुलपुर पर सोमवार देर रात कोहर के चलते इलाक नगर-उत्तम याविलर में एक बोलेरो कार नहर में गिरी।

दौटकर टी टक्कर से दो छात्राएं घायल

आगरा। बाना मत्स्यार क्षेत्र के नीमल तीरौरी पर मंगलवार सुबह टक्कर खाते समय साइकिल सवार दो छात्राएं टी टक्कर की घोट में आईं।

देन से गिरकर यात्री गंभीर, अस्पताल पहुंचाया

आगरा। फतेहाबाद बाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नदी साबरवा के पास आगरा-इटावा रेलवे मार्ग पर मंगलवार दोहरी अजीबगार एक्सीडेंट से गिरकर यात्री घायल हो गया।

ऑटो की टक्कर से बाइक सवार घायल

आगरा। बरहन के गौल ओवर रेलवे ब्रिज के पास मंगलवार शाम को एक ऑटो की टक्कर से बाइक सवार अशोक गंभीर घायल हो गया।

कार्रवाई: दुष्कर्म का आरोपी टीएसआई निलंबित

आगरा, वरिष्ठ संवाददाता। वीएएसएस की छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी टीएसआई सुरेंद्र सिंह अल्प गिरफ्तार हो। बीडिआन ने मंगलवार को पुलिस को रिप बयान में वही कहा कि टीएसआई ने उसे थोड़ा थिया।

थाना सिंकरदा पुलिस ने पौड़िता के बयान किए दर्ज, मैक्सिम की करवाया

को थाना सिंकरदा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने दोस्ती कर प्रजापल में फंसाया।

बयाने लगा। विरोध पर शादी की करवा। बाद में उसे यातायात कि वह फालसे से शादीयुक्त है। उसके दो बच्चे भी हैं।

आयकर कर्मचारी से ठगे ₹1.20 लाख

आगरा। साहवर ठगों ने पुलिसकर्मी बन कर आयकर कर्मचारी से 1.20 लाख की ठगी कर दी।

आयुर्वेद से किडनी रोगी 20 दिनों में हुआ ठीक-डा.दस्सन

Advertisement for Dr. Dassan's Ayurveda, featuring a photo of a child and text describing the treatment of kidney disease.

चुटकी बजाते ही दूध फ़िनिश



Advertisement for Mother Dairy 'Coco Milk' featuring a child and text about the product's benefits.

Table with financial data for Sea TV Network Limited, including Standalone and Consolidated figures for various quarters and years.

मदर डेयरी काउंसिल लिमिटेड है होमोसिनाइज्ड, सरल प्रोटीन और कैल्शियम युक्त स्लूकरफ्री होने के कारण पसंदी... 'आज ही घर लायें'...

SEA TV NETWORK LIMITED
 Regd. Office: 148 MANAS NAGAR (SHAHGANI) AGRA UP- 282010 IN
 Tel: +91-562-4036666
 Website: www.seatvnetwork.com
 CIN: L28132UP2004PLC028650

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 33 and Regulation 47(1) (a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at registered Office of the Company 148 MANAS NAGAR (SHAHGANI) AGRA UP 282010 IN on Monday 29th Day of January, 2024 at 05.00PM., to inter-alia consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the third quarter ended on 31st December, 2023. Further details will be made available at the website of the company viz. www.seatvnetwork.com and the website of the stock Exchange where the Company's shares are listed viz. www.bseindia.com

By Order of the Board
 For SEA TV NETWORK LIMITED

Sd/-
KARISHMA JAIN
 (Company Secretary & Compliance Officer)

Place : Agra
 Date : January 20th, 2024

IMPORTANT

utmost care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

GLITTEK GRANITES LTD
 CIN: L1410KA1989PLC022497
 Regd. Office: 42, KIADB Industrial Area Hoskote-562 114 (Karnataka)
 E-mail: info@glittek.com, Web: www.glittek.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on the **Tuesday, 13th day of February, 2024 at 11.00 A.M.** inter alia to consider and approve the Unaudited (Provisional) Financial Results of the Company for the 3rd quarter and nine months ended 31st December, 2023.

The said Notice may be accessed on the Company's website at www.glittek.com and may also be accessed on the Stock Exchange websites www.bseindia.com.

For **Glittek Granites Ltd.**
 Place: Hoskote Lata Bagri
 Date: 19.01.2024 Company Secretary

DCM SHRIRAM LTD.
 Regd. Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark 1, Aerocity, New Delhi-110037
 Tel.: 011-42100200
 CIN No.: L74899DL1989PLC034923
 E-mail: response@dcmsriram.com
 Website: www.dcmsriram.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Wednesday, 31st January, 2024**, inter alia, to consider the Unaudited Financial Results (both Standalone and Consolidated) for the quarter and nine months ended 31.12.2023.

This notice is also available on the website of the Company, i.e., www.dcmsriram.com and stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **DCM Shriram Ltd.**
 Sd/-
 (Sameet Gambhir)
 Place: New Delhi Company Secretary
 Date: 19.01.2024 & Compliance Officer

U.P. Power Corporation Ltd.
 R-APDRP Part-A (IT) Unit, Shakti Bhawan Ext., Lucknow
 Email: 2023soc@gmail.com

Notice inviting Tender Date: 20.01.2024

e-Bids are invited from interested bidders against **E-tender No. 01/UPPCL/RAPDRP-A/CSSA/2024** Dated 20.01.2024 for Selection of Agency for Establishment and management of Cyber Security Operation Center for PuVVNL, MVVNL, DVVNL, PVVNL, KESCo and UPPCL. Tender can be downloaded from UP e-tender portal <https://etender.up.nic.in> for further details. Any changes, corrigendum etc. shall also be notified on the website. UPPCL reserves the right to reject any or all proposals or cancel the bid without assigning any reason thereof.

Pre-bid meeting: At Shakti Bhawan, Lucknow on date 29.01.2024, time 12:00 hours onwards.

संख्या- 04-ज.स./पाकारि. दिनांक: 19.01.24

infoedge
INFO EDGE (INDIA) LIMITED
 CIN: L74899DL1995PLC068021 | Regd. Office: GF-12A, 94, Meghdoot Building, Nehru Place, New Delhi-19
 Corp. Office: B-8, Sector-132, Noida-201304 (Uttar Pradesh) | Tel: 0120-3082000; Fax: 0120-3082095
 Web: <http://www.infoedge.in>; Email: investors@naukri.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

The following share certificate(s) of the Company have been reported as lost/misplaced/stolen and the registered holder(s) of the said share certificate(s) have requested the Company for issuance of duplicate share certificate(s).

Notice is hereby given that the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the below mentioned person(s) unless valid objection is received by the Company within 15 days from the date of publication of this notice. The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the above Share Certificates. No claims will be entertained by the Company with respect to original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Name of the shareholder	Folio No.	Type of share	Certificate No.	Distinctive No.		No. of share
				From	To	
Geetika Batra	0000066	Equity	582	27323446	27323812	367
	0000066	Equity	710	54603251	54603984	734

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/their claim with all supporting documents with the Company at its registered/corporate address. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from appearance of this notice, the Company will proceed to issue duplicate share certificate(s) to the person listed above.

After issuance of duplicate share certificate(s), the original share certificate(s) shall stand cancelled and any person dealing with the original share certificate(s) shall be doing so at his/her risk as to costs and consequences and the Company will not be responsible for it in any way.

By Order of the Board of Directors
 For Info Edge (India) Ltd.

Date: January 19, 2024
 Place: Noida
Jaya Bhatia
 Company Secretary & Compliance Officer

Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Corporate Identity Number: U67100MH2007PLC174759
 Registered Office: Edelweiss House, Off. CST Road, Kalina, Mumbai - 400 098
 Tel: +91-22-4183 0600 Fax: +91-22-4183 0780 Website: www.edelweissarc.in E-mail: earc.cs@edelweissarc.in

Statement of Financial Results for the Quarter ended December 31, 2023

Regulation 52 (B) read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015
 (₹ in Millions except per share data)

Particulars	Quarter Ended		Year Ended March 31, 2023 (Audited)
	December 31, 2023 (Unaudited)	December 31, 2022 (Unaudited)	
1 Total income from Operations	2,786.34	2,678.32	10,006.99
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,258.98	1,140.06	4,290.53
3 Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,258.98	1,140.06	4,290.53
4 Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	946.91	854.55	3,183.93
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	946.36	853.67	3,181.73
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 10/- each)	2,632.53	2,632.53	2,632.53
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	27,872.10	24,382.41	25,308.75
8 Securities Premium Account	5,777.93	5,777.93	5,777.93
9 Net worth ¹	30,504.63	27,014.94	27,941.28
10 Paid-up Debt Capital / Outstanding Debt	24,419.14	29,302.25	29,168.96
11 Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-
12 Debt Equity Ratio ²	0.80	1.08	1.04
13 Earnings Per Share (₹) (Face Value of ₹ 10/- each) (not annualised for the quarters)			
- Basic	3.60	3.25	12.09
- Diluted	3.60	3.25	12.09
14 Capital Redemption Reserve	-	-	-
15 Debenture Redemption Reserve	438.51	630.62	438.51
16 Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ³	0.24	0.18	0.51
17 Interest Service Coverage Ratio (ISCR) ⁴	2.03	1.91	1.96

¹Net worth = Share capital + Reserves & Surplus

²Debt-equity Ratio = (Debt securities + Borrowings (other than debt securities)) / Net Worth

³DSCR = Profit before interest and tax / (Interest expense + Principal Repayment in next 12 months)

⁴ISCR = Profit before interest and tax / Interest expense

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of quarterly / annual financial results filed with the Stock Exchanges in accordance with Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and the Accounting Standards specified under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provision of the Companies Act, 2013, as applicable. The full format of quarterly / annual financial results are available on the websites of the BSE Limited and the Company's website (www.edelweissarc.in).
- For the other line items referred in Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed on the Company's website - www.edelweissarc.in.
- The financial results of the Company for the quarter ended December 31, 2023 are reviewed and recommended by the Audit Committee and have been approved by the Board of Directors of the Company at its meeting held on January 18, 2024.
- The Income Tax Authorities ("the Department") conducted a search under section 132 of the Income Tax Act, 1961 on the premises of the Company during March 2023. The Company is in the process of filing necessary responses to the re-assessment notices received from the Department on the said matters. Basis current internal assessment, management is of the view that this will not have any material impact on the financial results for the quarter ended December 31, 2023.
- The Company operates in a single reportable operating segment of distressed credit business as per the requirement of Ind AS 108 - Operating Segment.
- Figures for the previous period/year have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period/year presentation.

For and on behalf of the Board of Directors of
Edelweiss Asset Reconstruction Company Limited

Sd/-
Rajkumar Bansal
 Managing Director and Chief Executive Officer
 DIN: 00122506

January 18, 2024
 Alibaug, Maharashtra

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS").

PUBLIC ANNOUNCEMENT

Jana Small Finance Bank
 A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED

Our Bank was incorporated as 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' on July 24, 2006 at Bengaluru, Karnataka as a private limited company under the Companies Act, 1956, and was granted the certificate of incorporation by the Registrar of Companies, Karnataka at Bengaluru ("RoC"). Janalakshmi Financial Services Private Limited, was granted a certificate of registration dated March 4, 2008 by Reserve Bank of India ("RBI") to commence the business of non-banking financial institution without accepting public deposits, and was converted into an NBFC-MFI with effect from September 5, 2013. Subsequently, pursuant to a Board resolution dated June 1, 2015 and a Shareholders' resolution dated June 29, 2015, our Bank was converted into a public limited company under the Companies Act, 1956 with effect from August 10, 2015, and the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Private Limited' to 'Janalakshmi Financial Services Limited', and a fresh certificate of incorporation of our Bank was issued by the RoC under such name. Janalakshmi Financial Services Limited, was granted a fresh certificate of registration as a non-banking financial institution without accepting public deposits dated September 18, 2015 pursuant to such name change. Our Bank, then known as Janalakshmi Financial Services Limited, was granted an in-principle approval by the RBI to convert into a small finance bank ("SFB") on October 7, 2015. Thereafter, our Bank received the final approval, dated April 28, 2017 from the RBI, to establish and carry on business as an SFB. Pursuant to resolutions passed by the Board and Shareholders on May 30, 2017 and January 12, 2018 respectively, the name of our Bank was changed from 'Janalakshmi Financial Services Limited' to 'Jana Small Finance Bank Limited', and a fresh certificate of incorporation dated January 29, 2018 was issued by the RoC consequent upon the change of name. Our Bank commenced its business as an SFB with effect from March 28, 2018 and its name was included in the second schedule to the RBI Act pursuant to a notification dated July 16, 2019 issued by the RBI. For further details of changes in name and changes in the registered office of the Bank, see "History and Certain Corporate Matters" on page 247 of the Draft Red Herring Prospectus dated July 30, 2023 ("DRHP").

Registered and Corporate Office: The Fairway Business Park, #10/1, 11/2, 12/2B, off Domlur, Koramangala Inner Ring Road, Next to EGL, Challaghatta, Bengaluru - 560 071, Karnataka, India
 Tel: +91 80 4602 0100; Website: www.janabank.com; Contact Person: Lakshmi R. N. Company Secretary and Compliance Officer; E-mail: investor.grievance@janabank.com

Corporate Identity Number: U65923KA2006PLC040208

OUR PROMOTERS: JANA CAPITAL LIMITED AND JANA HOLDINGS LIMITED

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED ("BANK" OR "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION ("OFFER") COMPRISING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 5,750 MILLION (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 4,051,516 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "OFFER FOR SALE"), COMPRISING UP TO 1,757,755 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY CLIENT ROSEHILL LIMITED, UP TO 929,656 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY CVCIGP II EMPLOYEE ROSEHILL LIMITED, UP TO 141,285 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY GLOBAL IMPACT FUNDS, S.C.A., SICAR, SUB-FUND GLOBAL FINANCIAL INCLUSION FUND, UP TO 825 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II AJAY TANDON CO-INVESTMENT TRUST, AND UP TO 1,995 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY GROWTH PARTNERSHIP II SIVA SHANKAR CO-INVESTMENT TRUST, AND UP TO 1,220,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION BY HERO ENTERPRISE PARTNER VENTURES (THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES THE "OFFERED SHARES").

Potential bidders may note the following:

The Bank, in consultation with the BRLMs has undertaken (i) a pre-IPO placement of 12,154,044 CCPS (which will be converted into 401,149 Equity Shares) at an issue price of ₹ 10 each aggregating to ₹ 121.54 million and (ii) a pre-IPO placement of 2,439,607 Equity Shares at an issue price of ₹ 414 each (including a premium of ₹ 404 per Equity Share) aggregating to ₹ 1,009.99 million, by way of a private placement in accordance with Section 42 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 and Companies (Share Capital and Debentures) Rule, 2014, each as amended (together, the "Pre-IPO Placement").

The Pre-IPO Placement has been undertaken pursuant to the approval of the Board in their meeting held on August 11, 2023 & January 15, 2024 and Shareholders in their meeting held on September 4, 2023 & January 18, 2024.

The Bank has allotted CCPS and Equity Shares in the Pre-IPO Placement pursuant to the resolutions passed by the Board in its meeting held on December 7, 2023 and January 19, 2024, respectively, including to Key Managerial Personnel and Senior Managerial Personnel, in the manner as set forth below:

Date of Allotment	Type of Security	Number of Securities	Issue Price per Security	Total Consideration (₹ million)	Name of the allottee
19-Jan-2024	Equity	6,03,864		250.00	SBI General Insurance Company Limited
19-Jan-2024	Equity	4,83,091		200.00	Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited
19-Jan-2024	Equity	3,62,318		150.00	Ananta Capital Ventures Fund 1
19-Jan-2024	Equity	48,309		20.00	Aziza Malik Family Trust
19-Jan-2024	Equity	48,309		20.00	Madhu Silica Private Limited
19-Jan-2024	Equity	36,232		15.00	Arka Nxt Ventures
19-Jan-2024	Equity	36,232		15.00	Navatris Investments
19-Jan-2024	Equity	24,154	414	10.00	Dhoot Industrial Finance Ltd
19-Jan-2024	Equity	24,153		10.00	Anil Singhi
19-Jan-2024	Equity	96,619		40.00	Mc Jain Infoservices Private Limited
19-Jan-2024	Equity	1,20,772		50.00	Capri Global Holdings Private Limited
19-Jan-2024	Equity	24,154		10.00	RPM Venture Partners (Rahul Sharma)
19-Jan-2024	Equity	24,154		10.00	Polisetty Shyam Sundar
19-Jan-2024	Equity	1,69,082		70.00	LC Pharos Multi Strategy Fund VCC - SF1
19-Jan-2024	Equity	1,69,082		70.00	Negen Undiscovered Value Fund
19-Jan-2024	Equity	1,69,082		70.00	S Four Capital
07-Dec-2023	CCPS	6,05,960		6.06	Krishnan Subramania Raman (KMP)
07-Dec-2023	CCPS	3,02,980		3.03	Sumit Aggarwal (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	36,358		0.36	Rincoo Ji Vachha (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	1,99,967		2.00	Shrinivas Murthy J (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	2,72,682		2.73	Sudhir Madhavan (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	99,983		1.00	Pradeep Rebello (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	8,37,740		8.38	Gopal Tripathi (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	82,10,758	10	82.11	Ajay Kanwal (KMP)
07-Dec-2023	CCPS	2,42,384		2.42	Mahalingam Ramachandran (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	49,992		0.50	Chitra Menon (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	4,54,470		4.54	Ashish Gopal Saxena (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	2,72,682		2.73	Rajesh Rao (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	1,99,967		2.00	Satish Ramachandran (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	49,992		0.50	Abhilash Sandur (KMP)
07-Dec-2023	CCPS	90,894		0.91	Amit Raj Bakshi (SMP)
07-Dec-2023	CCPS	2,27,235		2.27	Tamal Bandyopadhyay

The CCPS shall be converted into Equity Shares prior to the filing of the Red Herring Prospectus, in accordance with Regulation 5(2) of the SEBI ICDR Regulations. Except for the KMPs and SMPs to whom Equity Shares and CCPS have been allotted pursuant to the Pre-IPO Placement, the abovementioned allottees are not, in any manner, connected with the Bank, the Promoters, the Promoter Group, the Directors, the Group Companies, and their respective directors and key managerial personnel.

This advertisement is issued in accordance with SEBI's correspondence dated July 4, 2023.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS

REGISTRAR TO THE OFFER

AXIS CAPITAL	ICICI Securities	SBI CAPS Corporate Investor Banking Solutions	KFINTECH
Axis Capital Limited 1 st Floor, Axis House, C-2 Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025 Maharashtra, India Tel: +91 22 4325 2183 E-mail: jana.ipo@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in Investor Grievance ID: complaints@axiscap.in Contact Person: Simran Gadh / Sagar Jatakiya SEBI Registration Number: INM000012029	ICICI Securities Limited ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Tel: +91 22 6807 7100 E-mail: jana.ipo@icicisecurities.com Website: www.icicisecurities.com Investor Grievance ID: customer-care@icicisecurities.com Contact Person: Ashik Joisar / Harsh Thakkar SEBI Registration Number: INM000011179	SBI Capital Markets Limited 1501, 15 th floor, A & B Wing, Parinee Crescendo, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051, Maharashtra, India Tel: +91 22 4006 9807 E-mail: jana.ipo@sbi-caps.com Website: www.sbi-caps.com Investor Grievance ID: investor-relations@sbi-caps.com Contact Person: Vaibhav Shah SEBI Registration Number: INM000003531	KFin Technologies Limited Selenium, Tower B, Plot No. - 31 and 32 Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddy - 500 032, Telangana, India Tel: +91 40 6716 2222 E-mail: jana.ipo@kfin-tech.com Website: www.kfin-tech.com Investor grievance ID: einward.ris@kfin-tech.com Contact Person: M. Murali Krishna SEBI Registration Number: INR000000221

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED**

On behalf of the Board of Directors

Sd/-
Lakshmi R N
 Company Secretary and Compliance Officer

Place: Bengaluru
 Date: January 19, 2024

JANA SMALL FINANCE BANK LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP with SEBI on July 30, 2023. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, website of the Bank at www.janabank.com and the websites of the BRLMs i.e. Axis Capital Limited, ICICI Securities Limited and SBI Capital Markets Limited at www.axiscapital.co.in, www.icicisecurities.com and www.sbi-caps.com, respectively. Bidders should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" that will be included in the RHP. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI for making any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares offered in the Offer may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act of 1933

कोल्ड-डे-कंडीशन रहने के आसार, दिन का पारा 15, रात का पारा 8 डिग्री से अधिक नहीं जाएगा

अलर्ट: 24 तक संभलकर, भीषण सर्दी के संकेत



सर्दी का सितम



ठंड में सबसे ज्यादा प्रभावित मुलाक़ातों की है। आगरा कैंट स्टेशन वॉलिंग में यारी सर्दी से परेशान दिखाए।

इस बार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही सर्दी

मौसम विभाग के मुताबिक 25 जनवरी तक अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के आसार नहीं है। यह 11 से 15 के बीच में घुसना होगा। इसी तरह शनिवार भी गुरुवार की तरह ठंडा रहेगा। पूरे दिन सूरज नहीं निकला, बादल छाए रहे। करीब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बर्फाली हवाएं भी चलती। गुरुवार को दिन का तापमान 11.2 डिग्री रहा जबकि गुरुवार को यह 11.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिन का पारा अभी सामान्य से 10 डिग्री कम चल रहा है। इसी तरह निचला तापमान भी कम है, इसे 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आठवां का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज किया गया। सर्दी के मारे लोग बंद स्थानों पर रुक रहे। जबकि खुले में कई जगह अलाव जलते दिखाई दिए।

आतिशबाजी की दुकान का ताला तोड़कर चोरी

आगरा। बाना डीकी क्षेत्र के परीखंड में गुरुवार रात चोरों ने गेट तोड़कर आतिशबाजी चुन ली। कल्ला खां पुर छोट खां ने बाने में तहरीर देकर बताया कि उसने लगभग 50 हजार रुपये का सामान चुरा लिया था। चोरों ने उसे चुरा लिया।

SEA TV NETWORK LIMITED
Regd. Office: 548 MANAK NAGAR SHANAGAR AGRA UP-202002
Website: www.seatvnetwork.com
FOR: 0521-2600000

NOTICE OF BOARD MEETING
Pursuant to Regulation 33 and Regulation 47(1) of the SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held at registered Office of the Company 548 MANAK NAGAR SHANAGAR AGRA UP-202002 on on Monday 29th Day of January, 2024 at 09.00 AM. To inter alia consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the third quarter ended on 31st December, 2023. Further details will be made available at the website of the company viz. www.seatvnetwork.com and the website of the stock exchange where the Company's shares are listed viz. www.bseindia.com

By Order of the Board
For SEA TV NETWORK LIMITED
Sd/-
KARISHMA JAIN
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Agra
Date: January 20th, 2024

सीजन के सबसे ठंडे दिन

04 जनवरी	16.2
05 जनवरी	16.1
06 जनवरी	17.0
08 जनवरी	14.4
09 जनवरी	14.4
16 जनवरी	11.2
17 जनवरी	13.0
18 जनवरी	11.2
17 जनवरी	11.8

कोल्ड-डे-कंडीशन
कोल्ड-डे-कंडीशन के करीब

25 जनवरी के बाद ही खुलगा मौसम

मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। इसके मुताबिक 19 से 24 जनवरी तक बर्फाली हवाएं चलेंगी। टूटी पछुआं और अरब पछुआं हवा चलेंगी। समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 140-160 पाद की रफ्तार से हवाएं उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहेंगी। प्रदेश के तापमान में दो से तीन डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। पांच दिनों तक कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी छाया रहेगा।

आफत

बर्फाली हवाओं से सामान्य लोगों के जोड़ होने लगे जाम

भीषण सर्दी, गलन, बर्फाली हवाओं ने सड़क पुराने हड्डी रोडियों की दिक्कत ही नहीं बढ़ाई है, सामान्य लोगों के जोड़ भी दर्द करने लगे हैं। जाम से होने लगे हैं। मांसपेशियां भी दर्द करने लगी हैं। आर्थोपैथिक सर्जन्स के पास कुल रोगियों में से 15-20% इसी तरह के हैं।

हाथ-पैरों में खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं

जब सर्दी अधिक लंबे समय तक चलती है तो रीबी दिक्कतें बढ़ती हैं। कारण कि जब बाहर ठंड होती है तब हाथ-पैरों में रक्त खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। जिससे आंतरिक कोर (हृदय और अंग) को गर्म रक्त के लिए ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इस स्थिति में जोड़ पहले से ज्यादा दर्द करने लगते हैं। ऐसे मौसम में लोग हल्ला कम कर देते हैं। इससे भी मांसपेशियों में दिक्कत बढ़ जाती है।

यह करें उपाय

- गर्म कपड़े** - कपड़ों को परत के हिलाने से पहले, कम से कम तीन परत जरूर पहनी चाहिए। सबसे ऊपर जैकेट या जिगर वाले कोट पहनें। जैकेट पर अगर विंडस्टॉपर लगा है तो सबसे अच्छा है।
- शारीरिक श्रम** - जोड़ी का लचीलापन और मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए व्यायाम करें। सुबह उठते ही व्यायाम करें। घर के अंदर भी तेज चल सकते हैं। ट्रेडिंग का प्रयोग कर सकते हैं।
- हॉट बेवेंज** - जोड़ी पर गर्म द्रव्य लेना। गर्म चाय अथवा चिकन है। पौष्टिक 15-20 प्रतिशत। मौसम को धिक्कती है, इसमें हाथों को बुझे सकते हैं। हीटिंग पैड का प्रयोग भी अच्छा रहता है।
- खानपान** - बाहर की रोटीयां, गुड़, ताजा इरी संकिया जैसे पालक, मीठी, ग्यार की फली, बैंगन, सरसों का सूप, उर्द-चने की दाल का अधिक प्रयोग करें। घर में बनाकर सूप पी सकते हैं।

अभी 9 दिन तक रही कोल्ड-डे-कंडीशन

इस सीजन सबसे ज्यादा ठंडे दिनों का रिकॉर्ड बन रहा है। शुक्रवार तक कोल्ड-डे-कंडीशन वाले कुल 9 दिन हो चुके हैं। आगे भी यही आसार है। यह सर्दी में गर्मी के कम होने का पहला संकेत है। शीतलता सामने पीटी लगना, अदरक और सूरज की सखली है। हाथ-पैर की उंगलियों के खुले हिस्से में छाले दिखने लगते हैं। इस स्थिति पर भी सावधानी बरतनी है। नोक और कान के निचले हिस्से पर छाले लेने से भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा होना सर्दी के आक के शरीर में बैठने के संकेत है। इसे परधान में भूल न करें।

यह होंगे प्रभाव

- घर की समर्या, बहती या बंद नाल। कई बार नाल से खून आने जैसी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लंबे समय तक सर्दी में रहने के कारण ऐसा होता है।
- कुछ लोगों को केवकभी भी आ सकती है। भीषण सर्दी के मौसम में इस स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना है। यह शरीर में गर्मी के कम होने का पहला संकेत है।
- शीतलता सामने पीटी लगना, अदरक और सूरज की सखली है। हाथ-पैर की उंगलियों के खुले हिस्से में छाले दिखने लगते हैं। इस स्थिति पर भी सावधानी बरतनी है।
- नोक और कान के निचले हिस्से पर छाले लेने से भी दिखाई दे सकते हैं। ऐसा होना सर्दी के आक के शरीर में बैठने के संकेत है। इसे परधान में भूल न करें।

ऐसे करें बचाव

- लंबे समय तक सर्दी के संपर्क में रहने से बचें। आमजन के अलावा विशेष रूप से बुजुर्ग, बच्चों को सर्दी से बचाएं। इनके सर्दी के दौरान खुले में जान से बचें।
- दिन हो या रात हमेशा कई सेयर में गर्म कपड़ों को पहनें। खानपान में भी गर्म तासीर वाली चीजों का अधिकतम प्रयोग करते रहें। इसी चीजों से बचाव करें।
- घर या कार्यालय के अंदर ही रहें। बंद स्थानों पर रहने से शीतलता का असर कम होगा। यदि कहीं से सीधी हवा आ रही है तो ऐसे स्थानों को बंद करें।
- सोपरी स्थिति होने पर तत्काल डाक्टर को दिखाएं, उनकी सलाह के अनुसार सावधानी रखें। कृषि और आपदा प्रतिक्रिया के सुझावों पर लगातार अमल करते रहें।

हैदराबाद-नई दिल्ली एक्सप्रेस 10 घंटे लेट रही

आगरा, बरिच संवाददाता। कोहरे में ट्रेनों के घंटों लेट आने का खिलौना। गुरुवार को भी यारी रहा। कंडाके की सर्दी में इलाहाबादी यारी आगरा कैंट व आगरा कैंट स्टेशन पर दिक्कतें हुए घंटों ट्रेनों के इंतजार में बंद रहे। ट्रेनों का इंतजार करते हुए बुजुर्ग और बच्चे बाहर परेशान हुए।

कोहरे में ट्रेनों के घंटों लेट आने का खिलौना। गुरुवार को भी यारी रहा। कंडाके की सर्दी में इलाहाबादी यारी आगरा कैंट व आगरा कैंट स्टेशन पर दिक्कतें हुए घंटों ट्रेनों के इंतजार में बंद रहे। ट्रेनों का इंतजार करते हुए बुजुर्ग और बच्चे बाहर परेशान हुए।

कोहरे में ट्रेनों के घंटों लेट आने का खिलौना। गुरुवार को भी यारी रहा। कंडाके की सर्दी में इलाहाबादी यारी आगरा कैंट व आगरा कैंट स्टेशन पर दिक्कतें हुए घंटों ट्रेनों के इंतजार में बंद रहे। ट्रेनों का इंतजार करते हुए बुजुर्ग और बच्चे बाहर परेशान हुए।

08 मिनट, बिनाबापटनम-निजामुद्दीन आगरा प्रदेश एक्सप्रेस 5 घंटे 16 मिनट, बंगलूरु-नई दिल्ली कर्नाटक एक्सप्रेस 3 घंटे 31 मिनट, पुणे-जोधपुरी मुंबिका जलजल एक्सप्रेस 8 घंटे 39 मिनट, योगवती इंदौर-पुणे उज्जैन एक्सप्रेस 16 घंटे 36 मिनट, बकुवती-कुरुक्षेत्र सीता जयंती एक्सप्रेस 10 घंटे 04 मिनट, वाराणसी-जोधपुर मकर एक्सप्रेस 3 घंटे 51 मिनट, जयलक्ष्मी-हजूरत निजामुद्दीन हाहाकोशल एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट, गाने कलावापति रेशम- निजामुद्दीन शान-प-भोपाल एक्सप्रेस 6 घंटे 56 मिनट, हैदराबाद-नई दिल्ली तेलंगना एक्सप्रेस 10 घंटे 34 मिनट, बंगलूरु-हजूरत निजामुद्दीन मंडलान एक्सप्रेस 5 घंटे 26 मिनट, प्रयाग-बिकानेर एक्सप्रेस एक्सप्रेस 3 घंटे 40 मिनट, गाने कलावापति रेशम-निजामुद्दीन रेशम एक्सप्रेस 2 घंटे 16 मिनट, हैदराबाद-निजामुद्दीन रेशम एक्सप्रेस 3 घंटे 44 मिनट, मुंबई-सोपरी-हजूरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 2 घंटे 33 मिनट, बंगलूरु-हजूरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 3 घंटे 46 मिनट देरी से पहुंची।



कैंट स्टेशन के बाहर खुले में यारी कुछ घण्टे लंबे से रात गुजाने को विवश है।

हिन्दुस्तान बरेशा या हिन्दुस्तान का

अनोखी
तारब

नया साल, बेहतर आप

मितलेंगे नए दोस्त, होगी खूब सारी बातें, गेम शोज और इनाम जीतने का मौका। तो अनोखी क्लब में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए QR कोड स्कैन करें और खुद को रजिस्टर करें।

दिनांक: 24 जनवरी 2024
समय: दोपहर 3:00 बजे से शुरू
स्थान: होटल ब्लू सफायर, एम.जी.रोड, आगरा

TORQUE
— Since 1985 —

धूल मिट्टी हटाए, तरौताजा बनाए

जो जोबा और टी ट्री के गुणों के साथ

100ml
50ml

Medisalic
BEAUTY REFINED
FACE WASH FOR ALL SKIN TYPES

100g
100% Pure Vegetarian Soap

Medisalic

Also available online at: amazon | Flipkart | Follow us on: f /torqueincore t /torqueincore i /torqueincore

For more information, please call or WhatsApp us: +91 977 921 4455 / care@torquepharma.com